



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 31, 2003 (ज्यैष्ठ 10, 1925)  
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 31, 2003 (JYAISTHA 10, 1925)

हम भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

- भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) पृष्ठ**  
भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं .. 677
- भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं .. 419**
- भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं 1**
- भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .. 685**
- भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .. \***
- भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .. \***
- भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .. \***
- भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .. \***
- भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .. \***
- भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) .. \***
- भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश .. \***
- भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .. 705**
- भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .. 1951**
- भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .. \***
- भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक विधायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं .. 7363**
- भाग IV—नौकराती व्यक्तियों और गैर-सरकारी विधायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .. 149**
- भाग V—अप्रेषा श्रम हिन्दो दानों में जन्म और मृत्यु .. आठवां को दर्शाने वाला सम्पूर्ण .. \***

\*आकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

PAGE	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 677	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .. *
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. 419	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. *
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .. 1	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. .. 795
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .. 685	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .. 1951
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .. *	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners .. *
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations .. *	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. 7363
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .. *	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .. 149
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence), and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. *	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .. *
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .. *	

## भाग I—खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2003

संकल्प

सं० ई० 11016/3/97—हिन्दी-II—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन विषयक दिनांक 11 अक्टूबर, 2001 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में “संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित गैर सरकारी सदस्य” शीर्षक के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाती हैं :—

क्र०सं० के स्थान पर को प्रतिस्थापित किया जाए

- 7 डा० वाई० लक्ष्मी प्रसाद कुंवर सर्वराज सिंह  
संसद सदस्य (राज्य सभा) संसद सदस्य (लोक सभा)
- 8 डा० महेश चन्द्र शर्मा श्री राजो सिंह  
संसद सदस्य (राज्य सभा) संसद सदस्य (लोक सभा)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रदेश के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, संसदीय राजभाषा समिति और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

अवतार सिंह चौहान, मुख्य लेखा नियंत्रक

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 मई, 2003

सं० एफ० 1-3/2003 संस्कृत-2—राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति के संघ-ज्ञापन के नियम 33(1) तथा नियमावली द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार प्रो०

वी० आर० पंचमुखी को दिनांक 15 जून, 2003 से पांच वर्ष की दूसरी अवधि के लिए राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (मानित विश्वविद्यालय), तिरुपति का कुलाधिपति पुनः नियुक्त करती है।

उपमन्यु चटर्जी, निदेशक (भाषा)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 2003

सं० 17014/2/2001-एस एंड एम—अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह में विकास की नीतियां शुरू करने के लिए आर्थिक सुधारों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति को सहायता देने के लिए गठित सचिवों की स्थायी समिति (एससीओएस) के निर्णय के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय के संयोजन में निम्नलिखित सदस्यों वाला समूह गठित करती है जिसका उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आदिम जनजातियों की समस्याओं का मूल्यांकन करना और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में इन जनजातियों के हितों से जुड़ी विकासात्मक गतिविधियों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।

1. श्री बी० एस० वासवान,  
सचिव,  
जनजातीय कार्य मंत्रालय,  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. श्री के० बी० सक्सेना,  
पूर्व सचिव,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,  
स्वास्थ्य एवं ग्रामीण विकास,  
भारत सरकार,  
नई दिल्ली।
3. निदेशक,  
भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता द्वारा  
नामित व्यक्ति (जो आदिम जनजातियों की समस्याओं से परिचित हैं)

4. श्री सोम नायडू,  
सहायक आयुक्त,  
मायाबंदर

महासागर विकास विभाग

नई दिल्ली-110003, दिनांक 8 मई 2003

5. निदेशक,  
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद,  
अंसारी नगर, नई दिल्ली द्वारा नामित व्यक्ति (जो  
अनुवांशिकी मामलों पर विचार करता है)

शुद्धिपत्र

दिनांक 8 मार्च 2003 के भारत के राजपत्र के भाग I  
खंड 1 में प्रकाशित विभाग के 24 जनवरी, 2003 के संकल्प  
सं० मविदि/3/7/2002-हिन्दी में दिनांक 24 जनवरी 2003  
के स्थान पर 24 फरवरी 2003 पढ़ा जाए।

राकेश कुमार, उप सचिव

6. डॉ० (श्रीमती) नमिता मोहम्मद अली,  
निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं)  
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर

7. डॉ० (श्रीमती) इंदिरा चक्रवर्ती,  
अध्यक्ष एवं प्रमुख, जीव रसायन एवं पोषण विभाग,  
अखिल भारतीय स्वच्छता एवं जन स्वास्थ्य संस्थान,  
कोलकाता

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 मई 2003

8. श्री एस० ए० अश्वर्दी, निदेशक (टी० डब्ल्यू)  
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन, पोर्ट ब्लेयर

सदस्य-सचिव

9. श्री तरुण कुमार, निदेशक जनजातीय कार्य मंत्रालय,  
भारत सरकार, नई दिल्ली

सं० क्यू०-16012/1/2002-ई०एस०ए० (डब्ल्यू०ई०) :  
जबकि श्रम मंत्रालय की दिनांक 17 फरवरी, 2003 की  
अधिसूचना सं० क्यू० 16012/1/2002-ई०एस०ए० (डब्ल्यू०  
ई०) के द्वारा आम जनता की सूचना के लिए पुनर्गठित  
केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के गठन को अधिसूचित करते हुए  
इस बात का उल्लेख किया गया था कि कामगार संगठनों के  
एक प्रतिनिधि तथा राज्य सरकार के दो प्रतिनिधियों के नाम  
बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।

2. यह समूह सचिवों की समिति द्वारा दिए गए समय  
को ध्यान में रखकर बैठक करेगा और अपनी कार्य योजना  
तैयार करेगा।

3. यह समूह अपने गठन से तीन माह के भीतर केन्द्र  
सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

4. यह समूह अपनी रिपोर्ट में ग्रेट अंडमानियों, ओंगो,  
और अन्य आदिम जनजातियों के समक्ष आ रही समस्याओं को  
स्पष्ट रूप से बताएगा और उन्हें पूरी तरह विलुप्त होने या  
उनकी पहचान और संस्कृति खोने के खतरे से बचाने के लिए  
योजनाएं और कार्यक्रम आरंभ करने के लिए केन्द्र सरकार और  
अंडमान एवं निकोबार प्रशासन को सक्षम बनाने के लिए उप-  
चारात्मक उपाय सुझाएगा।

5. टीए/डीए के उद्देश्य से समिति के गैर-सरकारी सदस्यों  
को केन्द्र सरकार के ग्रेड-I अधिकारियों के बराबर माना  
जाएगा, जो विमान-यात्रा करने के पात्र हैं।

2. अतः अब, आम जनता की सूचना के लिए यह अधि-  
सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड  
के नियम व विनियम के नियम 3 (vi) के अनुसार  
केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्तियों  
को नामित किया जाता है।

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

1. वित्त आयुक्त एवं प्रधान सचिव  
हरियाणा सरकार,  
श्रम एवं रोजगार विभाग,  
चंडीगढ़।

सदस्य

2. श्रीमती सी० लेमिन, भा० प्र० से०,  
श्रम आयुक्त,  
मेघालय सरकार,  
श्रम विभाग,  
शिलांग।

-वही-

एस० चैटर्जी, संयुक्त सचिव

डा० हरचरण सिंह, निदेशक

## MINISTRY OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

New Delhi-110001, the 13th May 2003

## RESOLUTION

No. E-11016/3/97-Hindi-II.—In continuation of the Ministry of Health & Family Welfare Resolution of even number dated 11-9-2001 regarding reconstitution of Hindi Sahakar Samiti of the Ministry of Health & Family Welfare under the heading "Members from committee of Parliament on Official Language" the following entries are substituted :—

S. No.,	For	Be substituted
4.	Dr. Y. Laxmi Prashad, M.P. (Rajya Sabha), Shri Kuwar Sarvraj Singh, M.P. (Lok Sabha).	
6.	Dr. Mahesh Chander Sharma, M.P. (Rajya Sabha), Shri Rajo Singh M.P. (Lok Sabha).	

## ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all State Governments and the administrations of the Union Territories, Office of the Prime Minister, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Accountant General of Central Revenues, Committee of Parliament on Official Language and all Ministries and Departments of the Govt. of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. S. CHAUHAN  
Chief Controller of Accounts

## MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

## (DEPTT. OF SECONDARY &amp; HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 12th May 2003

No. F. 1-3/2003-SKT-II.—In exercise of the powers conferred by Rule 33 (i) of the Memorandum of Association and Rules of Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha, Tirupati, the Govt. of India is pleased to re-appoint Prof. V. R. Panchamukhi, as Kuladhipati (Chancellor) of Rashtriya Sanskrit Vidyapeetha (Deemed to be University), Tirupati for another term of five years from 15th June, 2003.

2. The Kuladhipati shall exercise his powers in accordance with the Memorandum of Association and rules of the Vidyapeetha.

UPAMANYU CHATTERJEE  
Director (Language Division)

## MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 8th May 2003

No. 17014/2/2001-S&M(Pt.)—In pursuance of the decision of the Standing Committee of Secretaries (SCOS), set up to assist the Cabinet Committee on Economic Reforms on formulating policies for development of A&N and Lakshadweep

Islands, the Central Government hereby constitute a Group with the following composition under the convenorship of the Ministry of Tribal Affairs for the purpose of assessing the problems of the Primitive Tribes in the Andaman & Nicobar Group of Islands and to propose ways of ensuring that development activities in the A&N Islands are consistent with the interests of these tribals.

- (1) Shri B. S. Baswan,  
Secretary,  
Ministry of Tribal Affairs,  
Shastri Bhavan,  
New Delhi.
- (2) Shri K. B. Saxena  
Former Secretary  
Ministry of Social Justice & Empowerment,  
Health and Rural Development,  
Govt. of India,  
New Delhi.
- (3) A nominee of the Director,  
Anthropological Survey of India, Kolkata  
(Who is conversant with the problems of primitive tribes)
- (4) Shri Som Naidu,  
Assistant Commissioner,  
Mayabunder.
- (5) A nominee of the Director  
Indian Council of Medical Research,  
Ansari Nagar, New Delhi.  
(dealing with genetic issues).
- (6) Dr. (Smt.) Namita Mohammed Ali  
Director (Health Services)  
A&N Administration, Port Blair.
- (7) Dr. (Smt.) Indira Chakraborty  
Dean & Head,  
Department of Biochemistry & Nutrition  
All India Institute of Hygiene & Public Health,  
Kolkata.
- (8) Shri S. A. Awardi  
Director (TW)  
A&N Administration, Port Blair.

## Member Secretary

- (9) Shri Tarun Coomar, Director  
Ministry of Tribal Affairs,  
Govt. of India, New Delhi.

2. The Group shall meet and work out its action plan, keeping in view the time allocated by the Committee of Secretaries.

3. The Group shall submit its report to the Central Government within three months from the date of its constitution.

4. The Group shall clearly spell out in its report the problems being faced by the Great Andamanese, Onges and other primitive tribes and suggest remedial measures to enable the Central Government and the A&N Administration to formulate plans and programmes to save them from the danger of total extinction or of losing their identity and culture.

5. For the purpose of TA/DA, the non-official member(s) of the Committee will be treated as equivalent to Grade I Officers of the Central Government entitled to travel by air.

S. CHATTERJEE, Jr. Secy.

## DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 8th May 2003

## CORRIGENDUM

In the resolution No. DOD/3/7/2002 Hindi dated 24 January 2003 of this Deptt. published in the Gazette of India Part I Section 1 dated 8th March, 2003, the date appearing as 24th January 2003 may be read as 24th February 2003.

RAKESH KUMAR, Dy. Secy.

## MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 14th May 2003

No. Q-16012/1/2002-ESA(WE).—Whereas in the Ministry of Labour Notification No. Q-16012/1/2002-ESA(WE) dated 17th February, 2003 notifying the composition of the reconstituted Central Board For Workers Education for information of the public, it was mentioned that the

name of one representative of Workers Organization and two representatives of State Government will be notified later.

2. Now, therefore it is notified for information of the public that the following persons are nominated as members of Central Board For Workers Education as per rule 3 (vi) of Rules & Regulations of Central Board For Workers Education.

## REPRESENTATIVE OF STATE GOVERNMENT

## Members

1. Financial Commissioner & Principal Secretary  
Government of Haryana,  
Labour & Employment Department,  
Chandigarh.
2. Smt. C. Lamin, IAS,  
Labour Commissioner,  
Government of Meghalaya,  
Labour Department,  
Shillong.

DR. HARCHARAN SINGH, Director